



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2386]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939

No. 2386]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2017

का.आ. 2724(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4114(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 दिसंबर, 2016 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 17.05 हेक्टेयर (लगभग) या 42.13 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 17.05 हेक्टेयर (लगभग) या 42.13 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक सी-1(ई)/एफआर/936-0517, तारीख 20 मई, 2017 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :-

8. अर्जन के संबंध में आपत्तियाँ.- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसके संबंध में धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

अमल्लामेटेड गोंडेगांव-घाटरोहना ओपनकास्ट खान (शेष क्षेत्र)

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक संख्या सी - I(ई) /एफआर/936- 0517, तारीख 20 मई, 2017)

सभी अधिकार:

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्रफल हेक्टेयर में			कुल	टिप्पणी
					निजी	सरकारी	भाग		
1.	गोंडेगांव	13	पारसिवनी	नागपुर	17.05	0.00	0.00	17.05	भाग

कुल क्षेत्र : 17.05 हेक्टर (लगभग)

या 42.13 एकड़ (लगभग)

अधिसूचित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र के, ग्राम गोंडेगांव के प्लॉट संख्यांक :

निजी भूमि :

60/1-60/2- 60/3, 61/1ए-1 -61/1ए-2- 61/1बी-1-61/1बी-2-61/2ए- 61/2बी- 61/2सी, 62, 63/1- 63/2- 63/3.

सीमा वर्णन :

क-ख-ग : रेखा ग्राम गोंडेगांव में आरंभिक बिन्दु 'क' से प्रारंभ होती है और बिन्दु 'ख' से होकर गोंडेगांव खुली खदान के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा से होती हुई बिन्दु 'ग' से मिलती है।

ग - घ : रेखा दक्षिण पश्चिम दिशा से होती हुई गोंडेगांव खुली खदान के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा से होती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ-ड.-च : रेखा उत्तर पश्चिम दिशा से होती हुई गोंडेगांव खुली खदान के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा पर बिन्दु 'ड.' से होकर गुजरती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च - क : रेखा सड़क से लगकर उत्तर पूर्व दिशा से होती हुई ग्राम गोंडेगांव में आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/26/2016 – एलए एण्ड आईआर]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2017

S.O. 2724(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 4114 (E), dated the 21st December, 2016, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2016, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 17.05 hectares (approximately) or 42.13 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire all rights in or over the land measuring 17.05 hectares (approximately) or 42.13 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-1(E)/FR/936-0517, dated the 20th May, 2017 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Nagpur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra).

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows:-

8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S. O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Amalgamated Gondegaon Ghatrohana Opencast Mine (Balance Area)

Nagpur Area

District Nagpur (Maharashtra)

(Plan bearing number C-1(E)/FR/936-0517, dated the 20th May, 2017)

All Rights:

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Description of land			Total	Remarks
					Tenancy	Govt.	Forest		
1.	Gondegaon	13	Parseoni	Nagpur	17.05	0.00	0.00	17.05	Part

Total area : 17.05 hectares (approximately)

or 42.13 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired within boundary in village Gondegaon :

Tenancy Land :

60/1- 60/2- 60/3, 61/1A- 1 - 61/1A-2- 61/1B-1- 61/1B-2- 61/2A- 61/2B- 61/2C, 62, 63/1- 63/2- 63/3.

Boundary description:

A-B-C : Line starts from point 'A' in village Gondegaon, passes through point 'B' and meets at point 'C' on boundary of the land already acquired for Gondegaon opencast mine.

C – D : Line passes in South West direction along the boundary of land already acquired for Gondegaon opencast mine and meets at point 'D'.

D-E-F : Line passes in North West direction along the boundary of land already acquired for Gondegaon opencast mine, passes through point 'E' and meets at point 'F'.

F – A : Line passes along the road in North East direction and meets at starting point 'A' in village Gondegaon.

[F. No. 43015/26/2016- LA&IR]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.